



तत्काल जारी करने के लिए नयी रिलीज

एजुकेट गर्ल्स ने किशोरियों के सतत विकास के लिए राजस्थान के महिला अधिकारिता निदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

- समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, राज्य की महिलाओं और किशोरियों की पहल और सुधार प्रक्रियाओं की योजना बनाने और कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए एजुकेट गर्ल्स सहयोगात्मक ढांचा विकसित करेगी

जयपुर, भारत - मार्च 11, 2021: लड़कियों की शिक्षा के माध्यम से जेंडर और साक्षरता से जुड़े अंतर को दूर के लिए भारत के अति ग्रामीण और दूरदराज के गांवों में काम करने वाली गैर-लाभकारी संस्था, [एजुकेट गर्ल्स](#) ने आज जयपुर में राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की।



समझौता ज्ञापन पर चर्चा करते हुए, राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, श्री केके पाठक ने कहा कि "शिक्षा, कौशल और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूकता महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण आयाम हैं। इन आयामों के आधार पर, किशोरियों और महिलाओं

किशोरियों के सतत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान श्री केके पाठक, सचिव, महिला और बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार के साथ सफीना हुसैन, संस्थापिका, एजुकेट गर्ल्स।

के समग्र विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। समझौता जापन को लागू करके, हम किशोरियों और महिलाओं के लिए जमीनी स्तर पर अपार अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद करते हैं।”

समझौता जापन का विवरण साझा करते हुए, एजुकेट गर्ल्स के संस्थापिका, सफीना हुसैन ने कहा कि “इस सहयोग के साथ, सरकार और एजुकेट गर्ल्स समाज में व्यवहारिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत कर सकती हैं। यह साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और अनुभव में सही साबित हुये हमारे टेक्नोलॉजी समर्थित मॉडल का एक मेल है।” समझौता जापन के कार्यान्वयन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, उन्होंने कहा कि “हम अनुसंधान और समीक्षा अध्ययन हेतु अधिक सहायता और सहयोग बढ़ाने के लिए राज्य-स्तरीय संसाधनों में वृद्धि करेंगे। एजुकेट गर्ल्स भी लड़कियों की शिक्षा से जुड़े विभिन्न हितधारकों को सशक्त बनायेगी और शिक्षित करेगी तथा किशोरियों और महिलाओं के सतत विकास, उनके जीवन और उनके परिवारों तथा समुदायों को बदलने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को साथ लायेगी।”

समझौता जापन पर विस्तार से चर्चा करते हुए, सफीना हुसैन ने कहा कि “इस एमओयू के तहत, एजुकेट गर्ल्स एक राज्य-स्तरीय परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन इकाई (पीएमआईयू) की स्थापना करेगी, जो मल्टी-ईयर पार्टनरशिप के एक हिस्से के रूप में, एक उच्च स्तरीय लीडरशिप काउंसिल के तहत लक्ष्यों को पूरा करने का काम करेगी। पीएमआईयू क्षमता निर्माणकर्ता की भूमिका निभाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सर्वाधिक हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सभी सरकारी योजनाओं तक पहुंच बने।” इस परियोजना के लिए, एजुकेट गर्ल्सकीपीएमआईयू सभी महिला पहल को साथ लाने की दिशा में काम करेगी, और एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करेगी जिससे महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका के विभिन्न अवसरों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। इससे अपने राजनीतिक और कानूनी अधिकारों को समझने में भी उनको मदद मिलेगी।

एजुकेट गर्ल्स के बारे में: एजुकेट गर्ल्स एक गैर-लाभकारी संस्था है जो भारत के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए समुदायों को प्रेरित करता है। सरकार के साथ साझेदारी में काम करते हुए एजुकेट गर्ल्स वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 18,000 से अधिक गांवों में सफलतापूर्वक कार्यरत है। सामुदायिक स्वयंसेवकों की बड़ी संख्या को सहभागी बनाते हुए, एजुकेट गर्ल्स स्कूल से वंचित बालिकाओं की पहचान, नामांकन, और स्कूलों में ठहराव बनाए रखने और सभी बच्चों (दोनों - बालिकाओं और बालकों) के लिए साक्षरता और अंक गणितीय योग्यता में बुनियादी सुधार के लिए मदद करता

आने वर्षों में, इस गैर-लाभकारी संस्था का उद्देश्य बिहार के शैक्षिक रूप से अधिक पिछड़े जिलों में अपने काम का विस्तार करना है।

ABOUT EDUCATE GIRLS:

Educate Girls is a non-profit that focuses on mobilizing communities for girls' education in India's rural and educationally backward areas. Working in partnership with the Government, Educate Girls currently operates successfully in over 18,000 villages of Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. By engaging with a huge base of community volunteers, Educate Girls helps to identify, enrol, and retain out-of-school girls and to improve foundational skills in literacy and numeracy for all children (both girls and boys).

Learn more at www.EducateGirls.ngo | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Blog](#) | [YouTube](#)

Media Contact

sumedha.mahorey@educategirls.ngo